

8
1-4-05

5832

प्रेषक,

प्रीति सिंह,
सिक्लि जज & जू. डि. सदर
प्रतापगढ़।

8
1.4.05
सदर
1/4/05

IV/2762

24
2/4/05

8
16-6-05

सेवा में,

Request No

श्री कैसी श्रीवास्तव,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।

पत्रांक:

दिनांक: 23-03-2005

विषय:-

उपरो न्यायिक सेवा परीक्षा 2003 में
सम्मिलित होने के सम्बन्ध में आछया।

1208
S.O. Admin. M/A1

महोदय,

आपके पत्रांक 1719/वार-2962/एडमिन एं
दिनांकित इलाहाबाद 03-02-2005 के अनुसार मुझे ससम्मान

यह अवगत कराना है कि उपरो न्यायिक सेवा परीक्षा 2003
में सम्मिलित होने के लिए अर्हता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
किया गया था जिसके आधार पर मैं उक्त प्रारम्भिक परीक्षा
में सम्मिलित हुई थी और प्रारम्भिक परीक्षा में मुझे मुख्य
परीक्षा हेतु क्यनित किया गया था किन्तु व्यक्तिगत कारणों
से मैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई और न ही मेरे द्वारा
मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरा गया।

सूचना सादर प्रेषित है।

भवदीय,

Preeti Singh

प्रीति सिंह
सिक्लि जज & जू. डि. सदर,
प्रतापगढ़।

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE
PRATAAPGARH

No. 527 Dated - 23-3-05

FORWARDED

DISTRICT JUDGE
PRATAAPGARH

D.R. (M)
3/3-05
D.R. (M)
for information. No
action is called for
now.
May file?
4.7.05
File
Corwarla
05/07/05

GAKT.
GAKT
4.7.05

To,
The District Judge
Muzaffarnagar

23

No. 1719 / IV - 2962 / Adm (A) / Dated 32-05

Subject - Grant of 'No-objection certificate' to
Smt. Priti Singh, Judicial Magistrate,
Muzaffarnagar to appear in U.P.
Nyayik Sewa examination, 2003.

In, Request 110

In reference to your evolt. no. 52/XV -
8/2001 dated 20.1.04 on the above subject,
I am directed to say that Smt. Priti Singh,
Judicial Magistrate, Muzaffarnagar may be
asked to furnish the latest position in the
matter i.e. whether she appeared in the
examination, its result etc., so that further
necessary action may be taken in the
matter.

D.R.(M)

May issue?
Dr. Jaiswal
27.1.05

[Signature]
20/1/05

Issue
Dr. Jaiswal
29/01/05

Yours faithfully

[Signature]

Dy. Registrar

27/1/04
2491
30-1-04

Reg 67/110

31/1/04

Register No. 2062
File No. IV/2962
Serial No. 16

3/2/04

3/2/04

5-2-04

प्रेषक,

श्रीमती प्रीतिसिंह,
न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कोर्ट-2,
मुजफ्फरनगर ।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा :- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर ।

विषय :- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जू. डि. वर्ष 2003 में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरा वयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जू. डि. वर्ष 1999 में स्वीकृत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट विचारार्थ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जू. डि. वर्ष 2003 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद !

भवदीया

Prati Singh

श्रीमती प्रीतिसिंह
न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कोर्ट-2,
मुजफ्फरनगर।

दिनांक :- 8-1-2004

आचार्य जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर ।

सं. :- 52 / XV-8/2001

दिनांक :- 20/01/04

अग्रसंस्थि

Sr. L.K.J. 2/2/04
9/2/04

जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर ।

Handwritten signature

120
S.O. Adm. H/A

D.R. (M)
29-1-2004

10
Dd (M)
29 JAN 2004